

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2022

- हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत छह पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर था।
- वर्ष 2022 में GHI के लिए दुनिया के 136 देशों से आंकड़े जुटाए गए थे। इनमें से 121 देशों की रैंकिंग की गई। बाकी 15 देशों के पर्याप्त आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी रैंकिंग नहीं की जा सकी है। 29.1 स्कोर के साथ GHI के प्रकाशकों ने भारत में 'भूख' की स्थिति को गंभीर बताया है।
- इस रिपोर्ट को आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड (Concern Worldwide) और जर्मनी के संगठन वेल्थ हंगर हिल्फ (Welthungerhilfe) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।
- इस रिपोर्ट की रैंकिंग में भारत अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों से पीछे है।
- 17 देशों का GHI स्कोर 5 से कम है। इन देशों के बीच आंकड़ों में अंतर बहुत कम है। इन सभी देशों को अलग-अलग रैंकिंग नहीं देकर सभी को एक से 17 की रैंकिंग दी गई है।
- इन 17 देशों में बेलारूस, बोस्निया और हर्जोगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मोटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, तुर्की और उरुग्वे शामिल हैं।

GHI क्या है?

- GHI रिपोर्ट सन 2000 से लगभग हर साल GHI जारी होता है।
- इस रिपोर्ट में जितना कम स्कोर होता है उस देश का प्रदर्शन उतना बेहतर माना जाता है।
- कोई देश भूख से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों को कितना हासिल कर पा रहा है, इसकी निगरानी करने का साधन वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index) यानी GHI है।

GHI रैंकिंग इन 4 पैमानों पर दी जाती है-

- (i) कुल जनसंख्या में कुपोषितों की आबादी कितनी है
- (ii) 5 साल से कम उम्र के बच्चों में समुचित शारीरिक विकास नहीं होने की समस्या कितनी है
- (iii) 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लंबाई नहीं बढ़ने की समस्या कितनी है,
- (iv) 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर कितनी है।

- उपरोक्त मानकों पर अलग-अलग देशों को 100-बिंदु पैमाने पर रैंक किया जाता है। इसमें 0 और 100 क्रमशः सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब संभव स्कोर हैं।
- नौ या नौ से कम स्कोर का मतलब उस देश में स्थिति बेहतर है। भूख की समस्या कम है।
- 10 से 19.9 तक के स्कोर वाले देशों में भूख की समस्या नियंत्रित स्थिति में मानी जाती है।
- 20.0 से 34.9 के बीच वाले स्कोर वाले देशों में भूख की समस्या गंभीर मानी जाती है।

- 35.0 से 49.9 के बीच स्कोर वाले देशों में भूख की समस्या खतरनाक तो 50 से ज्यादा बेहद खतरनाक मानी जाती है।

